

आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित व्यापार नीतिके दो प्रमुख नरिणय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में पछिले वर्ष की व्यापार नीतिके संदर्भ में दो प्रमुख फैसलों का वर्णन किया गया है। पहला नरिणय वदिश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधिसमीक्षा से संबंधित है, जबकि दूसरा नरिणय दसिंबर 2017 में वशि्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय समझौतों से संबंधित है। इसके अलावा सर्वेक्षण के अंतर्गत लॉजिस्टिक एवं एंटी-डम्पिंग के क्षेत्र में लयि गए कुछ महत्त्वपूर्ण नरिणयों के वषिय में भी चर्चा की गई है।

एफटीपी मध्यावधिसमीक्षा और तदनुसार व्यापार से संबंधित नीतियाँ

- 5 दसिंबर, 2017 को जारी एफटीपी (Funds transfer pricing -FTP) मध्यावधिसमीक्षा में भारत के व्यापार क्षेत्र की सहायता के लयि कुछ अतरिकित कदम उठाए गए हैं।
- 15 दसिंबर, 2017 को सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लयि चमड़ा और जूता क्षेत्र में एक वशिष पैकेज को मंजूरी दी गई है।
- इससे रोजगार के साथ-साथ इस क्षेत्र में नरियात को भी बढ़ावा मलैगा।

बहुपक्षीय समझौते

- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वशि्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रसित्रीय सम्मेलन का समापन बना किंसी मंत्रसित्रीय घोषणा एवं ठोस परणाम के हुआ।
- हालाँकि, सम्मेलन के तहत भारत ने बहुपक्षवाद, नयिम आधारित आपसी सलाह के आधार पर नरिणय लेना, एक स्वतंत्र और वशि्वसनीय वविाद सुलझाने तथा अपील की प्रकरया, वकिस की केंद्रीयता जो दोहा वकिस एजेंडा (डीडीएक्यू) पर सहमत जितार्ई।
- इसके साथ-साथ सभी वकिसशील देशों को वशिष दर्जा, जैसे- डब्ल्यूटीओ के मौलिक सिद्धांतों पर दृढता बनाए रखने संबंधी पक्षों पर वशिष बल दया गया।

वदिशी मुद्रा भंडार

- भारत का वदिशी मुद्रा भंडार दसिंबर 2016 में 358.9 बलियन डॉलर से बढ़कर दसिंबर 2017 में 409.4 बलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया। वदिशी मुद्रा भंडार में वर्षवार 14.1 प्रतशित की वृद्धि दर्ज की गई है।
- यह दसिंबर 2017 में 409.4 बलियन डॉलर हो गया।
- मार्च 2017 से दसिंबर 2017 के दौरान वदिशी मुद्रा भंडार में 10.7 प्रतशित की वृद्धि दर्ज हुई। 12 जनवरी, 2018 को कुल वदिशी मुद्रा भंडार 413.8 बलियन डॉलर हो गया है।
- जहाँ एक ओर वशि्व की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ चालू खाता घाटे का सामना कर रही हैं, वहीं भारत वशि्व के सर्वाधिक वदिशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है।
- स्पष्ट रूप से यह भारत की आर्थिक संवृद्धिका एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। गौरतलब है कि वदिशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत पूरी दुनिया में छठे स्थान पर है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

- पछिले कुछ समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और इसके 2016 के 3.2 प्रतशित से बढ़कर 2017 में 3.6 प्रतशित और 2018 में 3.7 प्रतशित तक पहुँचने का अनुमान है, जो आईएमएफ द्वारा दयि गए पछिले अनुमानों में सुधार को दर्शाता है।
- भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष 2013-14 से ही अच्छी बनी हुई है और वतित वर्ष 2017-18 की पहली तमिाही में चालू खात घाटे (सीएडी) में कुछ बढ़ोत्तरी के बावजूद वतित वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह दूसरी तमिाही में सीएडी में कमी रही है।
- वतित वर्ष 2017-18 की पहली तमिाही में भारत का चालू खाता घाटा 15 अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.5 प्रतशित) रहा था, जो दूसरी तमिाही में तेज़ी से घटकर 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतशित) रह गया।

व्यापार घाटा

- भारत का व्यापार घाटा (सीमा शुल्क के आधार पर) वतित वर्ष 2014-15 से लगातार गरिता जा रहा था, लेकिन वतित वर्ष 2016-17 की पहली छमाही

- के 43.4 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में वृत्त वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में व्यापार घाटा बढ़कर 74.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया ।
- वृत्त वर्ष 2016-17 में पीओएल और गैर-पीओएल दोनों प्रकार के घाटों में कमी के साथ भारत का व्यापार घाटा 108.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था ।
- वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) में व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर) 46.4 प्रतिशत बढ़कर 114.9 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया, जिसमें पीओएल घाटे में 27.4 प्रतिशत और गैर-पीओएल घाटे में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है ।

व्यापार वन्यास

- वर्ष 2016-17 में नरियात वृद्धि काफी हद तक वस्त्र एवं संबंधित उत्पादों और चर्म एवं चर्म वनिरिमातको छोड़कर सभी प्रमुख श्रेणियों में हुई सकारात्मक वृद्धि पर आधारित थी ।
- वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अच्छी नरियात वृद्धि दर्ज करने वाले बड़े सेक्टरों में इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम क्रूड एवं उत्पाद शामिल थे, वहीं रासायनिक और संबंधित उत्पाद एवं वस्त्र और संबंधित उत्पादों के नरियात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई ।
- हालाँकि, प्रमुख रत्नों एवं आभूषणों में नकारात्मक वृद्धि रही ।
- वैश्विक व्यापार में सुधार के अनुमान के साथ भारत में इस वर्ष और अगले वर्ष के लिये वैदेशिक क्षेत्र की संभावनाएँ बेहतर दिखती हैं । 2017 और 2018 में वैश्विक व्यापार में क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि 2016 में व्यापार में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी
- प्रमुख साझेदार देशों के साथ व्यापार में सुधार हो रहा है और भारत की नरियात वृद्धि गति पकड़ रही है ।
- हालाँकि, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से सुस्ती का जोखिम बना हुआ है । इससे वदेश से धन प्रेषण में बढ़ोतरी देखने को मलि सकती है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है ।
- सरकार की जीएसटी, लॉजिस्टिक जैसी समर्थनकारी नीतियों और कारोबार को सुगम बनाने से संबंधित नीतियों से भी आगे मदद मलि सकती है ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/economic-survey-business-policy-mentions-two-major-decisions>

